

फा.सं.15/2/2018-भ.मु. (खंड-II)
कर्मचारी चयन आयोग

चयन पद परीक्षा चरण-VII/2019 (पद कोड सं केके11819 के लिए स्नातक एवं उसके ऊपर के स्तर और पद कोड सं. एन.आर14019 के लिए उच्चतर माध्यमिक स्तर)- अगले स्तर की संवीक्षा हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अतिरिक्त परिणाम की घोषणा।

स्नातक एवं उसके ऊपर के स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर के पदों हेतु चरण-VII/चयन पद/2019के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाके दिनांक 18.02.2020 को पहले से घोषित परिणाम के क्रम में, जिसमें विभिन्न पद-श्रेणियों के लिए, लिखित परीक्षा में योग्यता सूची एवं अभ्यर्थियों की उपलब्धता/ उपयुक्तता के अधीन, 1:20 अथवा 1:10 (रिक्ति:अभ्यर्थी) के अनुपात में, जहां कहीं भी लागू हो, (परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुसार), अभ्यर्थियों ने अर्हता प्राप्त की थी, तदनुसार आयोग ने चरण-VII/2019/चयन पद दिनांक 20.01.2020 की विज्ञप्ति के परिशिष्ट के अनुसरण में, कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शॉर्ट-लिस्ट किया है। आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 20.01.2020 को अपलोड चरण-VII/2019/चयन पद के शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के अनुसार, उप-बिन्दु (डब्ल्यू) पर पैरा-15 को शामिल किया गया था, जो निम्नानुसार है:-

“यदि, दस्तावेज़/ अंतिम दस्तावेज़ सत्यापन संवीक्षा के चरण के दौरान, आयोग यह पाता है कि किसी विशेष पद(दों) की श्रेणी के लिए रिक्ति(यां) पूरी तरह से नहीं भर पा रही है तो, अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त संख्या जिन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है, को न भर रही रिक्तियों को भरने के लिए, 5 तक की रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपात में और 5 से अधिक रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में, **सिर्फ एक और बार, आयोग के विवेकाधिकार पर** बुलाया जाएगा।

2. परीक्षा विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार, अतिरिक्त परिणाम तैयार करने में न्यूनतम कट-ऑफ [अना.-35% (अर्थात 70 अंक), आ.क.व./अपिव-30% (अर्थात 60 अंक), अन्य सभी श्रेणियां-25% (अर्थात 50 अंक) का मानदंड लागू किया गया है। पूर्व में दिनांक 18.02.2020 को घोषित परिणाम में जिन अभ्यर्थियों को “अनर्हक” घोषित किया गया था, उनके नाम पर सूचित पद-श्रेणियों के लिए, लिखित परीक्षा में योग्यता सूची एवं अभ्यर्थियों की उपलब्धता/ उपयुक्तता के अधीन, 1:20 अथवा 1:10 (रिक्ति-अभ्यर्थी) के अनुपात में, जहां कहीं भी लागू हो, अतिरिक्त परिणाम में अर्हक होने के लिए विचार किया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या सहित संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्ट-लिस्ट करने हेतु, योग्यता के क्रम में आयोग द्वारा निर्धारित पद-श्रेणी-वार कट-ऑफ इस प्रकार है:

(पोस्ट कोड सं केके 11819 हेतु स्नातक और उससे ऊपर के स्तर के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के कट-ऑफ विवरण)

परीक्षा स्तर	का	पोस्ट कोड	श्रेणी कोड	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	कट-ऑफ विवरण			
					अंक	भाग-क	भाग-ख	जन्म तिथि (दि.दि./मा.मा./व.व.)
स्नातक ऊपर	और	KK11819	9	20	72.58818	28.00	06.50	12-05-1997

* उपयोग किया गया कोड 9- अना. है

(पोस्ट कोड सं एनआर 14019 हेतु उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के कट-ऑफ विवरण)

परीक्षा का स्तर	पोस्ट कोड	श्रेणी कोड	उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या	कट-ऑफ विवरण			
				अंक	भाग-क	भाग-ख	जन्म तिथि (दि.दि./मा.मा./व.व.)
उच्चतर माध्यमिक	NR14019	6	04	60.94330	40.00	05.00	01-10-2000
उच्चतर माध्यमिक	NR14019	9	20	85.10027	30.00	10.00	03-08-1996

* उपयोग किए गए कोड 6-अपिव, और 9-अना. हैं

3. जो अतिरिक्त अभ्यर्थी जांच के अगले चरण के लिए शार्ट-लिस्ट किए गए हैं, उन्हें तीन सप्ताह के भीतर अर्थात् 22 फरवरी, 2021 तक केवल स्पीड पोस्ट के जरिए क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों को अपने ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट के साथ हार्डकापी में अपनी पद-श्रेणी के संबंध में शैक्षिक योग्यता, अनुभव, श्रेणी, आयु, आयु में छूट (जहां लागू हो) आदि से संबंधित सभी समर्थनकारी दस्तावेजों (स्व: प्रमाणित) की प्रति जमा करानी होगी। अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट से दस्तावेज संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों को भेजते समय लिफाफे के ऊपर स्नातक और उससे ऊपर के पद के लिए "स्नातक और उससे ऊपर का स्तर", "पद-श्रेणी सं. केके 11819" और उच्चतर माध्यमिक स्तर के पद के लिए "उच्चतर माध्यमिक स्तर", पद-श्रेणी सं. एनआर 14019" का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए।

अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आयोग की वेबसाइट (www.ssc.nic.in) पर लॉगइन करके अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

4. दिनांक 18.02.2020 को अपलोड किए गए राइट-अप (स्नातक स्तर और उससे ऊपर के स्तर तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर) की अन्य शर्तें एवं प्रावधान जोकि आयोग की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, अपरिवर्तित रहेंगे।

अवर सचिव (भर्ती मुख्यालय)
02.02.2021

